

#### **MAIDEN FORGINGS LIMITED**

Formerly Known As Maiden Forgings (P) Ltd. (AN ISO 9001: 2015 COMPANY)

CIN No. L29810DL2005PLC132913

Regd. Office : B-5 Arihant Tower, Block-D, Vivek Vihar, Delhi - 110092 Corporate Off. : E-201-Sec.-17, Industrial Area, Kavi Nagar, GZB.-201 002 (U.P.)

#### **September 09, 2024**

To,
Department of Corporate Services/ Listing **BSE LIMITED**25<sup>th</sup> Floor, P J Towers
Dalal Street Mumbai-400001

Subject: <u>Submission of Newspaper Advertisement having subject Notice of 19<sup>th</sup> Annual General Meeting and Information relating to E-Voting and Book Closure</u>

**Scrip Code: 543874** 

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is hereby submitting the Newspaper Advertisement made in relation to the 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, September 30, 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") and Information relating to E-Voting and Book Closure. The Advertisements appeared yesterday i.e., 08 September 2024 in Financial Express and Jansatta, Newspaper.

Kindly, take the above submissions on your record.

Thanking you,

For and on behalf of Maiden Forgings Limited

Monika Negi (Company Secretary and Compliance Officer)





1. DATE & TIME OF E-AUCTION 1. RESERVE PRICE



**E-AUCTION** SALE NOTICE सिंडिकेट Syndicate

Ph. No. 0172-2602431, 2663733, E-mail: rlcochd@canarabank.com SALE NOTICE OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTIES THROUGH E-AUCTION UNDER RULES 6(2), 8(6) & (9) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002

Recovery & Legal Section, Circle Office, 2nd Floor, Sector 34-A, Chandigarh

LAST DATE OF RECEIPT OF EMD 08.10.2024 UPTO 5:00 P.M.

DATE OF E-AUCTION: 09.10.2024 AT 11:30 AM TO 12:30 PM (with unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale)

Notice is hereby given to the effect that the immovable properties described herein, taken possession under the provisions of Securitisation and Reconstruction of financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and Security Interest (Enforcement) Rules 2002, will be sold through E-auction on the following terms and conditions. E-auction arranged by service provider M/s PSB Alliance Ltd (ebkray) through the website http://ebkray.in/. For detailed terms & conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in Canara Bank's website (www.canarabank.com)

Branch Name / Name & Address of | Brief Description of Property/ies Total Liabilities as Reserve Price Earnest Money Details of A/c No. Deposit (EMD) the Borrower(s) / Guarantor(s) on specified Date (in Rs.) IFSC Code (in Rs.) Possession Type Ground Floor DDA-SFS, CAT-II, Flat Total liabilities as on 209272434 Canara Bank, Channi Himmat no 47, Built Up area- 807.30 Sq. Ft. 31.08.2024: 1,47,00,000/-14,70,000/-CNRB0002975 Branch, Sh. Nishant Bharti, Sr. (75 Sq M.) allotted by DDA, Harmony Rs. 55,44,357.53 plus interest thereon w.e.f. 31.08.2024 SYMBOLIC POSSESSION Manager, M.: 9086532975, Apartments, AT-II situated at Pocket - & other expenses / charges (minus recovery, if any)

Borrower(s) & Mortgagor(s):- K&K Passage; East: 40" Wide Road; West: 8" Wide Lane. Enterprises, Prop. Smt. Shringar Sinha, Business Address: - House No. 146 Sector-5, Channi Himmat, Jammu, J&K-180015, Borrower(s): - Smt. Shringar Sinha

E-mail: cb2975@canarabank.com 1, Sector-4, Dwarka, New Delhi-110075, Bounded as under:- North: Flat No. 43: South: Entry/Staircase/Flat/9' Wide

D/o Tarun Kumar Srivastava, R/o Flat No. 47, DDA-SFS, Pocket 1, Sector 4, Harmony Apartments, Dwarka, New Delhi - 110075. Guarantor(s) / Mortgagor(s): Smt. Kirti Gandotra W/o Late Satish Gandotra, R/o Flat No. 47, DDA-SFS, Pocket 1. Sector 4, Harmony Apartments, Dwarka, New Delhi-110075.

OTHER TERMS AND CONDITIONS:- The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following conditions, a. The property/ies will be sold in "AS IS WHERE IS" and "WHATEVER THERE IS" condition, including encumbrances if any. (There are no encumbrances to the knowledge of the Bank. For details of encumbrance, contact the undersigned before deposit of the Eamest Money Deposit (EMD) referred to in 7(d) below). b. As per banks record, the outstanding dues of the Local Self Government against the property are not known to bank, as no notice received for the same. The Purchaser is liable to incur the dues, if any, c. Auction / bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website http://ebkray.in/. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings. d. The property can be inspected, with Prior Appointment with Authorized Officer from 03.10.2024 & 04.10.2024, between 03:00 PM to 05:00 PM i.e. The property will not be sold below the Reserve Price and the participating bidders may improve their offer further during auction process. f. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website http://ebkray.in/ on the date and time mentioned above. The intending Bidders/purchasers are requested to register on portal (http://ebkray.in/) using their mobile number and email id (Buyer Registration Link provided in the home page of the website). Further intending Bidders/purchasers are requested to complete Registration and e-KYC and add Bank details. Once registration and e-KYC is successfully completed, the intending Bidders/Purchasers have to deposit amount of EMD before last date and time of EMD. Kindly note that EMD amount will be transferred through E-Wallet only, maintained at http://ebkray.in/. Procedure to adding the fund/money to E-Wallet is as under: (i) The mode of adding fund/money in the "E-Wallet" is online i.e. either through Payment gateway OR after generation of Challan from http://ebkray.in/. In case of generation of Challan payment can be made through NEFT transfer/RTGS from any scheduled Commercial Bank. (ii) The registration, e-KYC and transfer of fund/money in E-WALLET must be completed well in advance. Only after having sufficient fund/money in his E-Wallet, the interested bidder will be able to pay EMD before last date and time for deposit of EMD. In case offers are for more than one property bidders will have to deposit amount equivalent to EMD for each property in E-Wallet. In case amount equivalent to EMD amount is not available in E-Wallet, system will not allow to submit EMD. (iii) The intending bidders shall deposit Earnest Money Deposit (EMD) being 10 % of the Reserve Price, on or before 08.10.2024 upto 5:00 PM. g. The intending bidders should register their names at portal http://ebkray.in/ and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E- auction from the service provider M/s PSB Alliance Ltd (ebkray), Contact no. 8291220220; E-mail: support.ebkray@psballiance.com. h. EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to their respective E-WALLET maintained with Ebkray (M/s PSB Alliance Ltd). Thereafter bidder can withdraw fund/money from E-WALLET to its registered account. Kindly note that the EMD shall not carry any interest. I. The intending bidders should register their names at portal http://ebkray.in/ and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E-Auction from the service provider M/s PSB Alliance Ltd (ebkray), Helpdesk Number - 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com. j. EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to their respective E-Wallet maintained with Ebkray.in (M/s PSB Alliance Ltd). Thereafter bidder can withdraw fund/money from E-Wallet to its registered account. Kindly note that the EMD shall not carry any interest. k. Auction would commence at Reserve Price. as mentioned above. Bidders shall improve their offers in multiplies of Rs. 10,000/-. The bidder who submits the highest bid (not below the Reserve price) on closure of 'Online' auction shall be declared as successful bidder. Sale shall be confirmed in favour of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor. I. The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. If the successful bidder fails to pay the sale price within the period stated above, the deposit made by him/her shall be forfeited by the authorised Officer without any notice and property shall forthwith be put up for sale again. m. All charges for conveyance, stamp duty and registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only. n. Where the sale consideration, of the property to be transferred is Rs. 50.00 Lacs and above the successful bidder will have to deduct Tax Deducted at Source) TDS @1% on the sale proceeds and deposit the same by furnishing the Challan in Form 26QB and submit the original receipt of TDS Certificate to the Bank. o. The sale of Movable Assets are subject to applicable GST over and above the sale price. p. Authorised Officer reserves the right to postpone / cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof, q. For further details contact Canara Bank Channi Himmat Branch or the service provider M/s PSB Alliance Ltd (ebkray). Helpdesk Number - 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com or Canara Bank's Website www.canarabank.com. For detailed terms & conditions of the sale please

Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Canara Bank nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder or vendor in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives such as back-up, power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE (AS PER AMENDMENT TO SECURITY INTEREST RULES 2002)

refer the link "E-Auction" provided in Canara Bank's website (www.canarabank.com).

Date: 07.09.2024

**AUTHORISED OFFICER, Canara Bank** Place: Chandigarh





Canara Bank Regional Office: Delhi By Pass Road, Opp. Jannat Banquet Hall, Kamal Colony, Model Town, Rohtak, Haryana 124001 Phone No. 01262-273434, 7496919268, E-mail: recroroh@canarabank.com

## **E-AUCTION SALE NOTICE**

SALE NOTICE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 UNDER RULES 8(6) & 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Canara Bank will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" in Eauction arranged by the service provider E-bkray (M/s PSB Alliance Pvt. Ltd), (Contact No. 7046612345/ 6354910172/ 8291220220/ 9892219848/ 8160205051, Email: support.ebkray@psballiance.com/ support.ebkray@procure247.com).

## DATE OF E-AUCTION IS 25.09.2024 (01:00 PM TO 2:00 P.M)

LAST DATE OF RECEIPT OF EMD IS 24.09.2024 UPTO 5:00 P.M.

(with unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale)

).	Branch Name/Name & Address of the Borrower(s)/ Guarantor(s)	Brief Description of Property/ies	Total Liabilities as on specified Date	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money Deposit (EMD) (in Rs.)	Details of A/c No	
						IFSC CODE	
						Possession notic	
	Canara Bank Dr Ambedkar chowk Branch, Authorised Officer,	9767.25 sq. yards (comprised in 18 sale deeds in the names of guarantors/mortgagors) ion situated at Ward No 5, Ram 1	ring 20.04.2021 rised Rs. 32,56,25,274.50/- ames as on plus further pors) interest and charges Ram Nagar, near Flyover at ential House No 68 & 69	Rs. 800.91 Lakhs	Property No. 1) Rs. 80.10 Lakhs	209272434	
						4° 2000000000000000000000000000000000000	
ı	Sh. Raj Singh, (M) 7496919268, 7055860918, 8572808644,				Property No. 2) Rs. 15.24 Lakhs	CNRB0008644	
	E-mail: cb8644@canarabank  1. M/S Lord Shiva Construction			Property No. 3) Rs. 57.30 Lakhs	Property No. 3) Rs. 5.73 Lakhs	SYMBOLIC	
ı	director Sh. Ashok Kumar Jain Property No. 2) Re-	Property No. 2) Residential		Property No. 4) Rs. 167.30 Lakhs	Property No. 4) Rs. 16.73 Lakhs	POSSESSION	
- 1	regu. Office. 140. 00, block 11,	wards situated at Word No.5 in		obana dist Copin	nt.		

Sector - 3, Rohini, Delhi - yards situated at Ward No 5, in street Old Anaj Mandi Gohana, dist. Sonipat, 110085, 2. M/S Lord Shiva Property No. 3) EMT of Vacant Plot Land having Khewat No. 8, Khata No. 8, Killa No. 3-8-11/1-12/2-6, 6-6,3 Construction Co. PVT. LTD. 16, 6-3, 1-6 (Ward No. 9), Shastri Nagar, Near Panipat Road, Gohana, dist. Sonipat measuring 1273.30Sq.Yds. Through its director Sh. Ashok in the name of Sh. Anil Kumar Jain,

Kumar Jain No.240-A, Ward No. Property No. 4) Single storey Industrial Unit at plot No. 182/35, measuring 264.062 Sq. Yards situated at Phase 5. Old Anaj Mandi, Gohana - I, Industrial Area, Chandigarh (backside punjab Roadways Workshop)

131301, Distt. Sonepat, Haryana, 3, Smt. Shakuntala Devi Jain R/o, House No. 240 - A, Ward No. 5, Old Anaj Mandi, Gohana - 131301, District Sonepat, Haryana, 4, Sh. Ashok Kumar Jain R/o, House No. 240 – A, Ward No. 5, Old Anaj Mandi, Gohana – 131301, District Sonepat, Haryana,

 Sh. Anil Kumar Jain R/o, House No. 240 – A, Ward No. 5, Old Anaj Mandi, Gohana – 131301, District Sonepat, Haryana, 6. Smt. Sunita Jain W/o Shri Ashok Kumar Jain R/o, House No. 240 - A, Ward No. 5, Old Anaj Mandi, Gohana - 131301, District Sonepat, Haryana, 7. Smt. Asha Rani Jain W/o, Shri Anil Kumar Jain R/o, House No. 240 - A, Ward No. 5, Old Anaj Mandi, Gohana - 131301, District Sonepat, Haryana, 8. Sh. Sanchit Jain S/o Shri Anil Kumar Jain, R/o, House No. 240 - A, Ward No. 5, Old Anai Mandi, Gohana - 131301, District Sonepat, Harvana, 9, Sh. Akash Jain S/o, Sh. Ashok Kumar Jain R/o, House No. 240 - A, Ward No. 5, Old Anaj Mandi, Gohana - 131301, District Sonepat, Haryana.

## TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE

a). Auction / bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website https://www.bankeauctions.com. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings.

b). The property can be inspected, with Prior Appointment with Authorized Officer on the dates mentioned in Sale Notice. c). The property will be sold for the price which is more than the Reserve Price and the participating bidders may improve their offer further during

q). EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to them. The EMD shall not carry any interest.

d). EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited in E-Wallet of M/s PSB Alliance Private Limited (E-bkray) portal directlyor by generating the Challan therein to deposit the EMD through RTGS/NEFT in the account details as mentioned in the said challan.

e). After payment of the EMD amount, the intending bidders should submit a copy of the following documents/details on or before 24.09.2024 upto 5.00 p.m. to Canara Bank, Dr Ambedkar Chowk Branch by hand or by email.

Demand Draft/Pay order towards EMD amount. If paid through RTGS/NEFT, acknowledgement receipt thereof with UTR No.

ii). Photocopies of PAN Card, ID Proof and Address proof. However, successful bidder would have to produce these documents in original to the Bank

at the time of making payment of balance amount of 25% of bid amount.

iii). Bidders Name, Contact No., Address, E-Mail Id iv). Bidder's A/c. details for online refund of EMD.

f). The intending bidders should register their names at portal https://ebkray.in/ and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E- auction from the service provider E-bkray, (Contact No. 8291220220/9892219848/8160205051, support.ebkray@psballiance.com).

h). Auction would commence at Reserve Price, as mentioned above. Bidders shall improve their offers in multiplies of Rs.10,000/-. The bidder who submits the highest bid (above the Reserve price) on closure of 'Online' auction shall be declared as successful bidder. Sale shall be confirmed in favour of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor. I). The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful

bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. If the successful bidder fails to pay the sale price, the deposit made by him shall be forfeited by the Authorized Officer without any notice and property shall forthwith be put up for sale again. This amount shall be deposited by way of Demand draft in favour of Authorized Officer, Canara Bank, Ambedar chowk I Branch OR shall be deposited through RTGS / NEFT / Fund Transfer to credit of account of Canara Bank. j). For sale proceeds of Rs.50.00 Lakhs (Rupees Fifty Lakhs) and above, the successful bidder will have to deduct TDS at the rate 1% on the Sale

proceeds and submit the original receipt of TDS certificate to the Bank.

k). All charges for conveyance, stamp duty / GST registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only. I). There is no encumbrance in the property to the knowledge of the bank. Successful Bidder is liable to pay all society dues, municipal taxes

panchayat taxes / electricity/ water charges / other charges, duties and taxes whatsoever, including outstanding, if any, in respect of and/or affecting m). Authorized Officer reserves the right to postpone / cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof.

n). In case there are bidders who do not have access to the internet but interested in participating the e-auction, they can approach Canara Bank,

Karnal Circle Office or Regional office rohtak or Dr Ambedkar Chowk Branch who, as a facilitating centre, shall make necessary arrangements. o). For further details, contact Mr. Raj Singh, Authorised officer, Canara Bank, Regional office, Rohtak (Mob. No. 7055860918) or Mr. Kunwar karan, Chief manager, (Mob No.: 8572808644), e-mail id: cb8644@canarabank.com or the service provider E-bkray (M/s PSB Alliance Pvt. Ltd), (Contact No. 7046612345/6354910172/ 8291220220/9892219848/ 8160205051, Email:support.ebkray@psballiance.com/

support.ebkray@procure247.com).

The sale confirmation is subject to the outcome of SA 295/2024 st DRT II Chandigarh

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 Date :- 06.09.2024 Place :- Rohtak Authorised Officer, Canara Bank

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

SR. 1.BORROWER(S) NAME

### CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

Registered & Corporate Office: - 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Circle Office: 9-B, 2nd floor, Pusa Road, Rajinder Place, New Delhi-110060

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6) and 9 (1)] Sale notice for sale of immovable properties

DESCRIPTION OF THE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) and 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive/physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and 'Whatever there is" on dates below mentioned, for recovery of amount mentioned below due to the Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor from Borrower mentioned below. The reserve price, EMD amount and property details mentioned below.

IO.	2. OUTSTANDING AMOUNT	MURIGAGED PROPERTY	2. LAST DATE OF SUBMISSION	2. EMD OF THE PROPERTY
1.	1.Mr. Manoj C ("Borrower")	All that piece and parcel of property	OF EMD	3. INCREMENTAL VALUE
: 1 5 F tr	2.Mrs. Jagvati C (Co-borrower) LOAN ACCOUNT No. LNMEGUR00018323 (Old)/ 50600000958322 (New) Rupees 22,72,841/- (Rupees Twenty wo Lacs Seventy Two Thousand Eight	All that piece and parcel of property being Plot No. C-44, area measuring 80 sq. yds., i.e., 66.88 Sq. Mts., out of Khasra No. 10, situated at Residential Colony Balram Nagar, Village Ahmad Nagar, Nawada, Pargana Loni Tehsil and Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201102 Bounded as under: East: Plot of Ravindra. West: 12 ft wide Road. North: Plot of Krishna SharmaSouth: Other property	PROPERTY INSPECTION  1. E-AUCTION DATE: 15.10.2024 (Between 3:00 P.M. to 4:00 P.M.)  2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC: 14.10.2024  3. DATE OF INSPECTION: 12.10.2024	RESERVE PRICE: Rs. 18,50,000/-Rupees Eighteen lacs Fifty Thousand
				Thousand Only)

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor's website TERMS & CONDITIONS OF ONLINE E-AUCTION SALE:-

1. The Property is being sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE & WITHOUT RECOURSE BASIS". As such sale is without any kind of warranties & indemnities. 2. Particulars of the property / assts (viz. extent & measurements specified in the E-Auction Sale Notice has been stated to the best of information of the Secured Creditor and

Secured Creditor shall not be answerable for any error, misstatement or omission. Actual extant & dimensions may differ. 3. E-Auction Sale Notice issued by the Secured Creditor is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to constitute

conduct own independent enquiries /due diligence about the title & present condition of the property / assets and claims / dues affecting the property before submission of bid/s. 4. Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website https://sarfaesi.auctiontiger.net Or Auction Tiger Mobile APP provided by the service provider M/S eProcurement Technologies Limited, Ahmedabad who shall arrange & coordinate the entire process of auction through the e-auction platform 5. The bidders may participate in e-auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidder himself. Secured Creditor /service provider

any commitment or nay representation on the part of the Secured Creditor. Interested bidders are advised to peruse the copies of title deeds with the Secured Creditor and to

shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash own, power failure etc. 6. For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider M/S E-Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger, Ahmedabad (Contact no.079-61200531/576/596/559/598/587/594/.), Mr.Ramprasad Sharma Mob.800-002-3297/79-6120 0559. Email:

7. For participating in the e-auction sale the intending bidders should register their name at https://sarfaesi.auctiontiger.net well in advance and shall get the user id and password. Intending bidders are advised to change only the password immediately upon receiving it from the service provider. 8. For participating in e-auction, intending bidders have to deposit a refundable EMD of 10% OF RESERVE PRICE (as mentioned above) shall be payable by interested bidders

through Demand Draft/NEFT/RTGS in favor of "Capri Global Housing Finance Limited" on or before 14-Oct-2024 9. The intending bidders should submit the duly filled in Bid Form (format available on https://sarfaesi.auctiontiger.net) along with the Demand Draft remittance towards EMD in a

sealed cover addressed to the Authorized Officer, Capri Global Housing Finance Limited Regional Office Office/Plot no. 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi 110 060 latest by 03:00 PM on 14-Oct-2024. The sealed cover should be super scribed with "Bid for participating in E-Auction Sale- - in the Loan Account No. above) for property of "Borrower Name." 10. After expiry of the last date of submission of bids with EMD, Authorised Officer shall examine the bids received by him and confirm the details of the qualified bidders (who have

quoted their bids over and above the reserve price and paid the specified EMD with the Secured Creditor) to the service provider M/S eProcurement Technologies Limited to enable them to allow only those bidders to participate in the online inter-se bidding /auction proceedings at the date and time mentioned in E-Auction Sale Notice. 11. Inter-se bidding among the qualified bidders shall start from the highest bid quoted by the qualified bidders. During the process of inter-se bidding, there will be unlimited extension of "10" minutes each, i.e. the end time of e- auction shall be automatically extended by 10 Minutes each time if bid is made within 10 minutes from the last extension.

12. Bids once made shall not be cancelled or withdrawn. All bids made from the user id given to bidder will be deemed to have been made by him alone. 13. Immediately upon closure of E-Auction proceedings, the highest bidder shall confirm the final amount of bid quoted by him BY E-Mail both to the Authorised Officer, Capri Global Housing Finance Limited, Regional Office Office / Plot no. 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi 110 060 and the Service Provider for getting declared as successful bidder in

14. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount (including EMD) within 24 Hour of the sale, being knocked down in his favour and balance 75% of bid amount within 15 days from the date of sale by DD/Pay order/NEFT/RTGS/Chq favouring Capri Global Housing Finance Limited. 15. In case of default in payment of above stipulated amounts by the successful bidder / auction purchaser within the stipulated time, the sale will be cancelled and the amount

16. At the request of the successful bidder, the Authorised Officer in his absolute discretion may grant further time in writing, for depositing the balance of the bid amount. 17. The Successful Bidder shall pay 1% of Sale price towards TDS (out of Sale proceeds) and submit TDS certificate to the Authorised officer and the deposit the entire amount of

sale price (after deduction of 1% towards TDS), adjusting the EMD within 15 working days of the acceptance of the offer by the authorized officer, or within such other extended time as deemed fit by the Authorised Officer, falling which the earnest deposit will be forfeited. 18. Municipal / Panchayat Taxes, Electricity dues (if any) and any other authorities dues (if any) has to be paid by the successful bidder before issuance of the sale certificate. Bids shall be made taking into consideration of all the statutory dues pertaining to the property.

19. Sale Certificate will be issued by the Authorised Officer in favour of the successful bidder only upon deposit of entire purchase price / bid amount and furnishing the necessary proof in respect of payment of all taxes / charges.

20. Applicable legal charges for conveyance, stamp duty, registration charges and other incidental charges shall be borne by the auction purchaser. 21. The Authorized officer may postpone / cancel the E-Auction Sale proceedings without assigning any reason whatsoever. In case the E-Auction Sale scheduled is postponed to a later date before 30 days from the scheduled date of sale, it will be displayed on the website of the service provider.

22. The decision of the Authorised Officer is final, binding and unquestionable. 23. All bidders who submitted the bids, shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of the E-Auction Sale and be bound by them.

24. Movable Article (if any) lying in the property is not part of this sale.

25. For further details and queries, contact Authorised Officer, Capri Global Housing Finance Limited: Ms. Swati Singh Mo. No. 8960750463/7400445137 and for further inquiry Ms. Kalpana Chetanwala-7738039346.

26. This publication is also 30 (Thirty) days notice to the Borrower / Mortgagor / Guarantors of the above said loan account pursuant to rule 8(6) AND 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, about holding of auction sale on the above mentioned date / place. Special Instructions / Caution: Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Capri Global Housing

Finance Limited nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements / alternatives such as back-up power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

Place: Ghaziabad, (Uttar Pradesh) Date: 08-09-2024 Sd/- (Authorised Officer) Capri Global Housing Finance Limited



BANK REQUIRES OFFICE SPACE indian Overseas Bank, intends to open commercially approved premises on

lease basis on two bid systems for opening of Our Branches preferably on Ground floor as per the details below:

S.No Centre District State Area Reg Modipuram Meerut 2000 Sq Ft

2.	Bicchouli	Sambhal	UP	1500 Sq Ft
3.	Deoband	Saharanpur	UP	2000 Sq Ft

for staff and customer as well. The offer is solicited from owners of premises with clear and marketable title to the property. NOC for Commercial usages required for locations conforming to corporation norms. The offer is to be submitted under Two bid system (Technical bid & Financial bid in separate sealed cover) so as to reach The Senior Regional Manager, Indian Overseas Bank, Regional Office Meerut Plot No-80 First Floor Mangal Pandey nagar near B.S.N.L office on or before 18.09.2024 upto 05.00 P.M. (bid to be submitted by landlord / landlady or power attorney holder only. Only one bid to be submitted for one property. Multiple bids on the same property and bids submitted by third parties will be rejected.)

Last date of submission of Technical bid -18.09.2024 Opening date of technical bid -19.09.2024

from Chief Manager-GAD(Contact No-8192900666) at IOB Regional Office Meerut.

Bank Reserves the right to reject any/all offers without assigning any reasons No brokerage is payable.

Date: 08.09.2024 Senior Regional Manager

### ME\_MAIDEN MAIDEN FORGINGS LIMITED Reg Off: B-5, Arihant Tower Block D Market, Vivek Vihar Delhi-110092

CIN: L29810DL2005PLC132913; Email id: info@maidenforgings.in Tel No: 01204331283; Website: https://maidenforgings.in/

**RELATING TO E-VOTING AND BOOK CLOSURE** 

through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the general circular 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs, to transact the business as set out in the Notice of 19th Annual General

2015, including circular and notification made their under, the Notice of 19th AGM and Annual Report for the F/Y 2023-24 have been sent in electronic mode, only to the members whose e-mail addresses are registered with the company/the depository participants. The requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the Members has been completed on 07.09.2024 The aforesaid Notice and Annual Report are available on the website of the Company i.e https://maidenforgings.in/Investor Relation.aspx and website of the stock exchange i.e

(a) The business as set out in the Notice of 19th Annual General Meeting shall be transacted through remote e-voting and e-voting at AGM; (b) The members whose name recorded in the Register of Members or in the Register of

Instructions for remote e-voting and e-voting at Annual General Meeting are given below:

Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 23. 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at AGM. (c) The remote e-voting period will commence at 10:00 A.M. on September 27, 2024 and will end at 5:00 P.M. on September 29, 2024.

(d) The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after 05:00 P.M. IST on September 29, 2024. (e) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the

Company after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date may cast vote after following the instructions for remote e-voting and e-voting as provided in the Notice convening the Meeting, which is available on the website of the Company and National Securities Depository Limited ('NSDL') as mentioned aforesaid. (f) The members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the

AGM but shall not be entitled to vote again in the meeting. (g) The facility of e-voting shall be provided to the members present at the Annual General

(h) Members can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or Mr. Mukul Agrawal, Director of Maashitla

Securities Private Limited having office at 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi - 110034, Email id:- rta@maashitla.com and Tel No:-011-45121795, in relation to their grievances relating to facility for voting by electronic

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the members are hereby informed that the Register of Members or the Register of Beneficial Owners as

Date: September 03, 2024 Monika Negi Place: Ghaziabad (Company Secretary and Compliance Officer)

## VLS FINANCE LIMITED VLS Regd. Office: - Ground Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 CIN: L65910DL1986PLC023129, E-mail: vls@vlsfinance.com

Notice of the 37th Annual General Meeting ('AGM') and E-voting Information Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of VLS Finance Limited ("the Company") will be convened through Video Conference ("VC") (Other Audio-Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') and other relevant notifications.

Website: www.vlsfinance.com, Ph: 011-4665 6666

The schedule for the 37th AGM is as follows:

Day, Date and Time of Annual General Saturday, 28/09/2024 at 3:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") Day and Date of Book Closure Saturday, 21/09/2024 to Saturday, 28/09/2024 (both days inclusive) Cutoff Date for entitlement of e-voting Friday, 20/09/2024 Wednesday, 25/09/2024 at 9.00 a.m. till Friday, Date of remote e-voting 27/09/2024 upto 5.00 p.m. E-voting at AGM Starting at Commencement of AGM and will end after 15 minutes of conclusion of AGM.

Kindly note that no physical copy of Annual Report for the Financial Year 2023-2024 will, therefore, be sent sup moto by the Company to the members either before or after the AGM and all communications from the Company relating inter-alia to AGM shall be made in electronic mode viz. email etc. The Company has approached National Securities Depository Ltd. ('NSDL') for providing e-voting facility for the ensuing AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes its member after dispatch of the AGM Notice or whose email ID is not registered/ updated with the Company and holding shares as on cut-off date may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company at email ID: investor, services@rcmcdelhi.com or mailing at RTA's office address. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions stated in the Notice of 37th AGM and in case of any queries connected with electronic voting; Shareholders may refer the Frequently Asked Questions and e-voting User Manual for Shareholders available at the Downloads section of NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com. Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cutoff date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM, A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through e-voting at AGM.

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 of the Company is available on the website of the Company at www.vlsfinance.com, the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of the concerned stock exchanges www.bseindia.com., www.nseindia.com and www.cse-india.com. The business to be transacted through electronic means both ordinary and special have been set out in the notice convening 37th AGM.

Members holding shares in physical form are advised to convert their holdings in demat form as transfer of shares in physical form had been prohibited by the SEBI w.e.f. 01/04/2019. Further, they are also requested to register/update their Email ID, Bank mandate, contact number, change in address (if any) enclosing self-attested proof thereof, with the Company by writing to the Company at the registered office or its RTA in prescribed form. Above details along with requisite documents can also be sent electronically to the Company's dedicated investor services email ID: hconsul@vlsfinance.com or RCMC Share Registry Pvt. Ltd.- the RTA at email ID: mdnair@rcmcdelhi.com or investor.services@rcmcdelhi.com followed by physical documents. The up-dated Bank details will enable electronic credit of dividend without any delay to the members besides compliance of SEBI's directive dated 16/03/2023. Dividend, if declared, at the ensuing AGM will be gaid to members as on date of Book Closure for the said AGM.

Members holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants ('DP') for updating the Email ID, Bank Mandate, contact number. Address etc. Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members w.e.f.

April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act'). In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and/or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, with the Company/RTA by sending documents in prescribed form through e-mail followed by physical copy thereof at the earliest as specified in the notice. Any delay/non updation of PAN with the Company may result in deduction of tax at a higher rate on dividend and other benefits, as and when declared by the Company besides other implications as enumerated in the notice convening 37th AGM. The members are requested to periodically check the website of the Company for any updates.

It may be noted that in absence of email ID it would not be possible for the Company to send any communication relating to forthcoming AGM inter alia relating to the link to join the AGM to be held through Video Conference! OAVM, to such member. For any clarification, please contact Shri Ramesh C. Pandey-Group Head-Secretarial or the undersigned at +91-11-4665 6666. The above communication is intended for information and benefit of all members besides

complying with applicable directives. For VLS Finance Ltd.

H. Consul Company Secretary

M. No. - A11183

financialexp.epapr.in

already paid (including EMD) will be forfeited and the property will be again put to sale.

The format of Technical Bid (Part-A) & Financial Bid (Part-B) may be obtained

NOTICE OF 19THANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the members of **MAIDEN** FORGINGS LIMITED will be held on Monday, 30th day of September, 2024 at 11:30 A.M.

According to the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulations, www.bsesme.com

maintained by the Depositories shall be closed during the period from September 23, 2024 to September 30, 2024 (both days inclusive).

New Delhi

Place: New Delhi

Date: 06-09-2024

#### मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड

(पूर्ववर्त्ती पी जी इंडस्ट्री लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालयः ए - 30, एस -11, द्वितीय तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली - 110048 सीआईएन : L74899DL1993PLCO56421, www.pgil.com, pgindustryltd@gmail.com

#### 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना (परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के अनुसरण में)

. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, संख्या . 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, संख्या 10/2021 दिनांक 23 जुन 2021, संख्या 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021, संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई 2022 और संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) और समय—समय पर जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, एजीएम स्थल पर सदस्यों की शारीरिव उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है और आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल नाध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसलिए, सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। इन परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक शनिवार, 28 सितंबर 2024 को शाम 05.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

जपर्युक्त परिपन्नों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023—2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जानी है, जिनकी ई—मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। कंपनी अपने सभी सदस्यों को पहले की पद्धतिय के समान पद्धतियों के अनुसार ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कर रही हैं। यदि आपकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो वितीय व 2023-2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकत ई—मेल पते पर भेजे जाएंगे। यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन करें।

कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को nfo@masserv.com पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की रव-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए उपलब्ध करायें।

कृपया अपना बैंक विवरण मूल रद्द किए गए चेक के साथ हमारे आरटीए (अर्थात् एमएएस . सर्विसेज लिमिटेड, टी–34 द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–II, नई दिल्ली -110020) को फोलियो नंबर का उल्लेखकारी पत्र के साथ भेजें यदि पहले से पंजीकत

कृपया इसे 21/09/2024 को या इससे पूर्व अपडेट करें।

कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कृपया इसे 21/09/2024 को या इससे पहले अपडेट करें।

वित्तीय वर्ष 2023—2024 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइटwww.pgil.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना, कंपनी अधिनियम 201: की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के उद्देश्यार्थ की जायेगी।

कृते मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड हस्ता./-

स्थान : नई दिल्ली साकेत डालभिय दिनाँक: 06/09/2024 प्रबंध निदेशक (डीआईएन : 00083636)

**HAMPTON SKY REALTY LIMITED** 

(Formerly known as Ritesh Properties and Industries Limited)

Regd. Office: 205, Second Floor, Kirti Mahal, Rajendra Place,

Patel Nagar, West Delhi-110008, India

CIN: L74899DL1987PLC027050, Website: www.hamptonsky.in

E-mail Id: riteshlimited8@gmail.com, Phone: +91 92123 59076

NOTICE OF THE THIRTY-SEVEN (37th) ANNUAL GENERAL

**MEETING ("AGM") AND E-VOTING INFORMATION** 

1. Notice is hereby given to the members that the Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of HAMPTON

SKY REALTY LIMITED (formerly known as Ritesh Properties

and Industries Limited) will be held on Monday, 30th day of

September, 2024 at 12.15 P.M. through video conferencing ('VC')/other audio visual means ("OAVM") in accordance with the

applicable provisions of the Companies act, 2013 ("Act") and the

rules made thereunder, read with General Circular No. 09/2023

dated September 25, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs

("MCA"), Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167

dated October 7, 2023 issued by Securities and Exchange Board of

India and other applicable circulars (Collectively referred as

2. Pursuant to the Act and in accordance with the Applicable Circulars

Notice convening the 37th AGM.

through VC/OAVM only.

Limited ("CDSL").

"Applicable Circulars") to transact the business as set out in the

the companies are allowed to conduct their AGM through VCor

OAVM, which does not require physical presence of the Members, Directors, Auditors and other persons at common venue, in view of

this, the 37th AGM of the Company is being conducted through VC /

OAVM facility. The deemed venue for the 37th AGM shall be the

Registered Office of the Company situated at 205, Second Floor,

Kirti Mahal, Rajendra Place Patel Nagar, West Delhi, Central Delhi-

110008. Hence, Members can attend and participate in the AGM

copy of the Annual Report for the financial year 2023-24 ("Annual

Report") and Notice of the 37th AGM of the Company, inter alia

indicating the process and manner of e-voting have been sent only

through electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are

registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent

("RTA")/Depository Participant(s) ("DP"). Members may note that

the notice of AGM and Annual Report will also be available on the

Company's website www.hamptonsky.in and website of BSE

Limited ("BSE") at www.bseindia.com. Further, the Notice of AGM

is also available on the website of Central Depositories Securities

advertisement dated 6th September, 2024 in Business Standard

both in Hindi and English Newspaper along with their electronic

editions, inter alia, advising the members who have not registered or

updated their email addresses with the Company, RTA or DPs, as

Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and in view of the

aforesaid Applicable Circulars and SEBI Circulars, the Company

has engaged the services of CDSL to provide the facility of voting by

electronic voting system to all the Members to enable them to cast their votes electronically during the AGM in respect of all the

businesses to be transacted at the aforesaid Meeting. The facility of

casting the votes by the Members using such electronic voting

system from a place other than venue of the AGM ("remote evoting") is also provided by CDSL. Members who have cast their

vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM

but shall not be entitled to cast their votes again. The manner of

remote e-voting by Members holding shares in dematerialized

mode, physical mode and for Members who have not registered or

updated their email addresses is provided in the instructions for e-

6. A person who becomes member of the Company after the dispatch

of Notice of AGM and holding shares on the Cut-off date, may obtain

the login ID and password by following the detailed procedure as

voting system to be provided in the AGM, shall be in proportion to

shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the

cut-off date i.e. September 23rd, 2024. A person, whose name is

recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial

owners (as at the end of the business hours) maintained by the

depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the

facility of remote e voting or e-voting system provided in the

Meeting. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder,

the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The

2024 at 9:00 A.M (IST) and ends on Sunday, September 29, 2024 at

5:00 PM. (IST). Thereafter, e-voting module shall be disabled for

e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

8. The remote e-voting period commences from Friday, September 27,

9. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may

refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual

available at www.evoting.com under help section or write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or the grievance can be

addressed to Ms. Tarandeep Kaur, Company Secretary at the

registered office of the Company or at email

riteshlimited8@gmail.com or at +91-9212359076.

7. Voting rights of the members for voting through remote e-voting or e-

voting section which forms part of this Notice.

provided in the AGM notice.

voting by members.

5. In accordance with the provisions of Section 108 of the Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto and

the case may be, to register their e-mail id's with them.

The Company has also published a public notice by way of an

3. In compliance with the aforesaid Applicable Circulars, electronic

## ओरिएंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड

मर्यालयः २६/२५. बाजार मार्ग, पराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060, दरभाषः ०११-४५०४८६१२

फैक्सः 011-45048612, वेबसाइट: www.orientaltrimex.com, ईमेलः info@orientaltrimex.com 28वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन एवं ई-वोर्टिंग की जानकारी के संबंध में अंशधारकों को सूचना

सूचना दी जाती है कि कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन कॉर्पोरेट का नंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा निर्गत सुसंगत परिपत्रों के साथ पठित कंपर्न अधिनियम २०१३ ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, सोमवार ३० सितम्बर, २०२४ को सायं ०५ 00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम र किया जाएगा। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने में सम

28वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड व माध्यम से उन सदस्यों को प्रेषित की गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं प्रलेख कंपनी की वेबसाइट www.orientaltrimex.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की बसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइर देमपदकपंण्बवउ तथा सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइन www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

o पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकर गवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के अनुपालन प तद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों की पंजिका तथा कंपनी की अंश अंतरण बहियां एजीएम द्देश्यार्थ 24 सितम्बर, 2024 से लेकर के 30 सितम्बर, 2024 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

p प्रनी ने एजीएम में पारित होनेवाले संकल्पों के संदर्भ में सीडीएसएल के ई—वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम कट—ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2024 के अनुसार भौतिक अथवा अभौतिक रूप में अंशों का धारण क वाले अपने सभी सदस्यों के लिए ईं-बोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग तथा 'एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की व्यवस्था की है। उपरांकित कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के अंशों का धारण करनेवाले सदस्यगप ही ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। मतदान अधिकारों (ई-वोटिंग सुविधा के लिए) की गणन कट—ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्य(यों) के नाम में पंजीकृत अंशों के प्रदत्त मूल्य पर की जाएगी समस्त योग्य सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई—वोटिंग सुविधा की निम्नलिखित अनुसूची को ध्यान में रख लें:

पारत नाम प्रदेशन व अपूर्वन है। जेन में रूपार में प्रतिकार आपूर्ण की जाति है।					
विवरण	दिनांक				
वर्ष 2023—24 की वार्षिक रिपोर्ट और सूचना के प्रेषण	07 सितम्बर, 2024				
की समापन की तिथि					
दूरस्थ ई-वोटिंग के प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	27 सितम्बर, 2024 को प्रातः 09.00 बजे				
दूरस्थ ई-वोटिंग के समापन की तिथि एवं समय	29 सितम्बर, 2024 को सायं 05.00 बजे				
एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की तिथि	30 सितम्बर, 2024				
परिणाम की घोषणा की तिथि	02 अक्टूबर, 2024 को अथवा इससे पूर्व				
	•				

समस्त योग्य सदस्य तथा व्यक्ति जो सचना के प्रेषण के उपरांत कंपनी के सदस्य बनते हैं वे ई-वोटिंग सविध विसी/ओएपीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने/उससे जुड़ने की प्रविधि तथा एजीएम की सुबना में वर्णितानुसार सदस्यों के ईमेल पतों के पंजीकरण/अद्यतनीकरण हेतु दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें/क सकते हैं। दरस्थ ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने वाले सदस्यगण हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्य सकत है। दूरस्थ ई-वाटिंग द्वारा अपना मतदान करने वाल सदस्यगण हालांकि वीसी/आएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें एजीएम के दौरान पुनः मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सदस्य द्वारा एक बार कर दिए गए मतदान को बाद में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि दूरस्थ ई-वोटिंग को सीडीएसएल द्वारा उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिश्ट तिथि एवं समय के उपरांत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

नैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई—400013, ईमेल nelpdesk.evoting@cdslindia.com, दूरभाषः 1800 22 55 33 से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानसा कृते ओरिएंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड हस्ता./ राजेश कुमार पुनिया

MALMAIDEN

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 07.09.2024

मेडेन फोर्जिग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बी-5, अरिहत टावर ब्लॉक डी मार्कट, विवेक विहार दिल्ली-110092 सीआईएनः L29810DL2005PLC132913; ईमेल आईडीः info@maidenforgings.in टेलीफोन नंबरः 01204331283: वेबसाइटः https://maidenforgings.in/

19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग और बुक क्लोजर से संबंधित जानकारी

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि मेडेन फोर्जिंग्स लिमिटेड के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर 2023 को जारी सामान्य परिपत्र 09/2023 के अनुपालन में, 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, उनके

तहत जारी परिपत्र और अधिसूचना सहित, 19वीं एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में केवल उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल परं कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपन्नों और सेबी परिपन्नों के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 07.09.2024 को पूरा हो है। उपरोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट https://maidenforgings.in/Investor\_Relation.aspx और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bsesme.com पर उपलब्ध है।

दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के निर्देश नीचे दिए गए हैं:-(क) 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कारोबार रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम में ई—वोटिंग के माध्यम से किया जाएगाय

(ख) जिन सदस्यों का नाम कट–ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वे रिमोट ई-वोटिंग और रजीएम में ई—वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। (ग) रिमोट ई—वोटिंग अवधि 27 सितंबर, 2024 को सुबह 10रू00 बजे शुरू होगी और 29 सितंबर

2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। (घ) एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को शाम 05:00 बजे के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। 29 सितंबर, 2024 को भारतीय मानक समय के अनुसार।

(ई) कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी क सदस्य बन जाता है तथा कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह बैठक बुलाने के नोटिस में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करने के बाद वोट कर सकता है, जो कंपनी और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

(एफ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में ले सकते हैं लेकिन बैठक में दोबारा वोट करने के हकदार नहीं होंगे। (जी) वार्षिक आम बैठक में उपस्थित सदस्यों को ई—वोटिंग की स्विधा प्रदान की जाएगी।

(h) सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या 022 – 4886 7000 और 022 – 2499 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या श्री मुकुल अग्रवाल ीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक स्ववायर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034, ईमेल आईडी: –rta@maashitla.com और टेलीफोन नंबर: –011–45121795 पर है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित उनकी शिकायतों के संबंध में संपर्क कर सकते हैं।

 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों का रिजस्टर या लामकारी मालिकों का रिजस्टर 23 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान बंद रहेगा।

दिनांकः 03 सितंबर, 2024 मोनिका नेगी

(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

### **OMANSH ENTERPRISES LIMITED**

CIN: L01100DL1974PLC241646 Office No. B-507, 5th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi- 110001 Email Id: omanshwork@gmail.com, Website: www.omansh.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that: The 49th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 30th September, 2024 at 12:00 Noon through Video Conferencing, to transact the business as set out in the Notice of the meeting dated 5th September, 2024.

The Company on Friday, 6th September, 2024, completed the dispatch of Notice of 49th AGM along with the Annual Report for the year 2023-24 by electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) on Friday, 30th August, 2024 (the "Cut-off Date")

The Notice of Annual General Meeting can be viewed/ downloaded from the CDSI website www.evotingindia.com, Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 27th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the said Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulations 44 of the Listing Regulation, the Company is pleased to provide e-voting facility by Central Depository Services Limited (CDSL) to its members in respect of the business(es to be transacted at the Annual General Meeting.

The e-voting facility will be available from Friday, 27th September, 2024 (9:00 A.M. to Sunday, 29th September, 2024 (5:00 P.M.) after which e-voting shall not be allowed The Cut-Off date for determining the eligibility to vote through electronic means or at the AGM is Monday, 23rd September, 2024.

Any person, who acquires shares of the company and becomes member of company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-Off date, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

Facility for Remote e-voting shall be available at the AGM. Members who have already cast their vote through Remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.

In case of any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members, available at www.evotingindia.com or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager at CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathor Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013, or at 1800-22-5533 or registered office address of the Company.

By the Order of the Board of For Omansh Enterprises Limited

Place: New Delhi

Anshu Kumari Agarwa Company Secretary and Compliance Öfficer Mem. No. A72422 Reg Office: B-507, 5th Floor, Statesman House Barakhamba Road, New Delhi-110001

खुदरा ऋणन और भूगतान समूह (स्थानीय कार्यालय/शाखा) : एक्सिस AXIS BANK हाउस, टावर-2, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी प्रीन्स विशटाउन, नोएडा—201301, उ.प्र., **एक्सिस बैंक लिमिटेड,** तृतीय तल, गीगाप्लेक्स, एनपीसी—1 टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगलसन रोड, आईरोली, नवी मुंबई—400 708, **पंजीकृत कार्यालयः** 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्भाण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अच आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदृहारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(वें) तथा गारंटर(चें) को सूचना दी जाती है कि प्रत्यामूत लेनदार के पास बंधक/प्रमारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा प्रत्यामूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वार प्राप्त किया जा चुका है, लोन नंबर पीएचआर01260666353 में श्रीमती पूजा पाल की तरफ प्रत्यामूत लेनदार क 27—08—2024 तक बकाया राशि **रू. 21,13,533/— (रूपए इक्कीस लाख तेरह हजार पांच सौ तेतीस मात्र)** + भाव ब्याज और तमानती की वसूनी के लिए दिनांक कि 16-10-2024 को **'जैसी है जहां है', जैसी है जो के लिए** दिनांक कि 16-10-2024 को **'जैसी है जहां है', जैसी है जो के** लिए दिनांक कि तमा 'जै **भी है वहां है'** आधार पर बेची जाएगी। आवस्यक विवरण के लिए कृपया नीचे दी गई नीलामी अनुसूची देखें :-

ज्ञात ऋणभार (यदि कोई) कोई नहीं ₩ 1722.050 /— (रूपए संबद्ध लाख बार्डस हजार प्रचास मार्च सुरक्षित मूल्य (रू. में) वरोहर राशि जमा (रू. में) 📆 1,72,205/— (रूपए एक लाख बहत्तर हजार दो सौ पांच मात्र

"**एक्सिस बैंक लिजिटेड**" के पक्ष में दिल्ली में देय डीडी/पीओ वे ईएमडी के साथ बोली/निविदा जमा करने हेतू 14—10—2024 के अप. 05.00 बजे तक, एक्सिस हाउस, टावर—

ांतिम तिथि, समय और स्थान द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन -वेशटाउन, नोएडा—201301, उ.प्र. में श्री मुकेश सिंह को संबोधित सार्वजनिक ई—नीलामी हेतु तिथि, समय और 16-10-2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ वेब पोर्टल

https://www.bankeauctions.com पर ई—नीलामी दस्तावेज, जिनमें ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा इत्यादि दिए गए हैं, उपरिवर्णित अनुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अनुसूची - सम्पत्ति का वर्णन **अब्बुद्धणी - क्षत्रपति का चर्णब**ं :- सम्पत्ति तथा गूमि के समी अंश एवं खंड : ग्राम थाडा, मिवाडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर ग्राजस्थान में नेइन होम डेक्तपर्स के **प्यू गार्डम** के टावर क्यू में 7वें तल पर फ्लैट नंबर 119, सुपर बिल्ट अप एरिया 1111 वर्ग किट, एक करके कार पार्किंग के उपयोग के अन्य अधिकार सहित (इसमें आगे सम्पत्ति कही गई है), उक्त फ्लैट मैससे नेइन होम डेक्तपर्स ग्रा. लि. से खरीदा गया है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रत्याभूत लेनदार की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक नामतः https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक के अनुगोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com देखें।

नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेबपोर्टल <u>https://www.banke</u> र ऑनलाइन संचालित की जाएगी।

. किसी अन्य सहायता के लिए, इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश सिंह, मोबाइल नंबर +91–9873015430 ार कार्यालय समय के दौरान पूर्वा. 10 बजे से अप. 4.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

तिथि : 08-09-2024. हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) एक्सिस बैंक लिमिटेड

**क्र** कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ाबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परि जबार, अखाहरताक्षरकता न काटक नोहरत बका तर के प्राविकृत आवकारा के रूप ने विचार वारस्त्यात्वा के प्रात्मुतिक एवं पुनिर्माण कर्या हो। एवं पुनिर्माण क्या प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के उंतर्तन कीर प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमध 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहाँ नीचे विवरणितानुर उधारकर्ताओं को माँग सुचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को सुचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिक के अंदर, उत्तत सूचनाओं में ऑकेत राशि का, मुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागती, गुलको और व्ययों के साध्य प्रतिमुगतान करने को कहा गया था। उन्तत उधारकर्ता(गण)/सह-उधारकर्ता(गण) राधि का प्रतिमुगतान करने में विकल हें चुके हैं, अतएव एतदृद्वारा उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है वि . अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनिय की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें घटत षितयों के प्रयोगान्तर्गत, उसके साथ अंकित तिथियों पर, अंशियर कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृहारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों का लेन-देन न करें तथा सम्पत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, वहाँ उसमें अर्थात् सूचना में विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथियों से आकलित भावी ब्याज, लागतों एवं शुल्कों हेतु कोटक महिंदा बैंक िमिटेड के प्रमाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों को घुडवाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनायन की घारा 13 की उप-भावा (के प्रावधानों को आंत्र आमितित किया जाता है। उधारकर्ताओं, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देयराशि, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित माँग सूचनाओं और उनके अंतर्गत अम्बर्धित

ाशियाँ. अधिग्रहण की तिथि के विवरण यहाँ इसमें नीचे दिए गए हैं

धारकर्ता, सह—उधारकर्ता के नाम तथा पते, अचल संपत्ति ऋण खाता संख्या, ऋण राशि के विवरण श्री संजय कुमार सहगत पुत्र श्री रमेश चंद सहगत, पता
ः मंजर बेयर इंडिया लिमिटेड द्वारा सीनियर मैनेजर 66,
जद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा— 122022 और श्रीमती सिम्मी
सहगत पत्नी श्री संजय कुमार सहगत और श्री संजय
कुमार सहगत पुत्र श्री रमेश चंद सहगत, दोगों का पता
— एसकेए 115, शिग्रा कृष्णा विस्टा, इंदिरापुरम,
गाजियाबाद, वत्तर भरेश— 201010 और दोगों का पता
यहाँ पर मी: एफ-62, राथे पुरी, दिल्ली— 110051 और
दोगों का पता यहाँ पर भी: जवेंट नंबर एफ-ए/ 1205,
दियों तल, फरें आर्केड, सेक्टर-14, कोशांबी, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश—201001
ऋण खाता संख्या: 00166660004358
ऋण श्राती र 445000/— (रुपये चौवालीस लाख 4. 67,92,090 / -(रुपये सडसठ लाख ऋण राशि : रु. 44,50,000/- (रुपये चौवालीस लाख संजय कुमार सहगल तथा पचास हजार मात्र) श्रीमती सिम्मी सहगल।

बयानबे हजार नब्बे मात्र) 02.09.2024 तव देय तथा भगतानयोग 03.09.2024 से पूर्ण भुगतान होने तक लाग ब्याज के साथ। . 04.09.2024

श्री रूपेश चंद्र पोद्दार पुत्र श्री जुगल साहू तथा श्रीमती सुमिता पॉल पत्नी श्री रूपेश चंद्र पोद्दार, दोनों का पता : 433, मूतल, शक्ति खंड-।।।, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014 प्लॉट नंबर एच-4, सेक्टर-14, कौशाँबी गाजियाबाद में स्थित, कौशांबी गाजियाबाद में स्थित, ग्यारहर्षे तल पर फ्रेंच आर्केंड नामक मदन के ब्लॉक-1 में पलैट नं. एफए/1102 धारक संपत्ति के समस्त वह मान तथा अंह जिसका क्षेत्रफल 1445 वर्ग फुट है. जिसमें भूमि का अविमाजित आनुपातिक मान तथा सामान्य सुविधायें समाहित हैं। बंधककर्ता का नाम : ऋण खाता संख्या : 00306660001495 ऋण राशि : रु. 57,72,300 / – (रुपये सत्तावन लाख बहत्तर हजार तीन सौ मात्र)

साँकेतिक अधिग्रहण 3. 13.06.2024 4. रु. 1,08,36,866/— (रुपये एक करोड़ आठ लाख छत्तीस हजार आठ सौ छियासठ मात्र) 02.09.2024 तक देय तथ भुगतानयोग्य, 03.09.2024 से पूर्ण भुगतान होने तक लागू ब्याज के साथ।

. 04.09.2024

. 24.06.2024

2. साँकेतिक अधिग्रहण

दिनौंक : 08-08-2024, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किसी भी पूछताछ के लिये कृपया श्री सोमेश सुंदरियाल (मीबाइल नं. 91 8910663402) तथा श्री रितेश चौहान (मीबाइल नं. 91 7355036788) से संपर्क करें।

श्री रूपेश चंद्र पोद्दार



## Edelweiss ASST RECONSTRUCTION

रदानोस एसेट रिक्न्ट्रम्सन कंपनी जिम्हेटेंद्र, पंजीकृत कार्यालय : एदालेस हाटम, औरू सीएसटी रोद, करीना, मुंबई 4000क तथा रिजनिस कार्यालय : एरक्वेम शरम, विकास तेन, जोतिकी गींद, रमारम्बारबीर एतिया, करीना, बांडा पूर्व, मुंबई-४००००

# वित्तीय परित्तम्पतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्नाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अविनियम 2002 ('अधिनियम') की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

पुरुष का करावर्त (बारावर्त) मार्टी की पेटिंग विद्रों तक है. विपूर्ण की ने जाने द्वार कर की पुरिवर की पूजन की बात में कीपूराता र हुए हो है और विपन्ने कर बाते को अल्लाह्य को जीवनावर्ती पीकरीयों हुआते हैं कर में वर्डिंग विद्या पार है। एकरावर एवंट विवाहतान करने मिदेव (एकारपुर एआसी दुख-एसरी 49) वं दुस्ती वं तम में वर्ष करते हुए द्वार विनव 30 विस्ता, 861 वं असरमंद एतेमेर वं तहत और विर निरमतियों के प्रतिपृतिकाम का पुनर्नेमंग तक प्रतिपृति तित प्रार्तन अधिनाम ४००० (बरावारीन अधिनयम् की पार १८६०) के आर्थन उदार गति का प्रयोग मते हुं उन्चे और बार रहे में सुकार रिशे की नवें में और पान माने बादा दुवने की मत की रहे थे। तकी, दुव सुकार प्रतकतीने को बार दे किन काल जा रही है, जब उन्हें रायद्वारा इस सर्ववरिक स्टब्स के नादम से स्टिंग किंद्र जाता है।

त्याकर्ता / सह-त्याकरा / संक्रकर्ता व गर	एलीए सी विधे	13(2) की विधि	बकाय राति / देव तिथि
। भी वर वर्डड (कारकर्त) पुत्र क्वीनाथ वर्डड, म्हल्न १। २५० स्टॅब्स राज्य, सार्ड मार्डेट संगीना शीवागा-१३००१, २ फेमरी करून गारीह		29/08/2004	रः १८,70,647.13 (स्थ्ये चौदश साध्य स्टरर हवास पांच सी
(स्वयमां/ का-त्याकर्ग) पत्ते अनिवाद करोड़ मासन में 20. बीरात राज्य बाई सार्वट सोवीचा हरियम-१८१०(८ क्या पता पत मी : ई 25 कर 3. सार्व क्या केट्स (का-त्याकर्ग), कार्य कर्म की बाद करेड़ के मास्ट राज्य, बाई बावेंट सीवीचा हरियाम-१८१०(	हर मर्ज, तर्स	ent, fteeft,	मीवारीत क्या सेव पीते गाउँ। 2006,2004 वी अनुसार, रामा में 00.07.2004 के बाद व्यवस्तृत गारी मान / अन्य तथा

बंबककृत प्रतिमृति के विशत

वंदति की अनुक्री

हम पर सिम व्यविधिक दुवल, क्रीमाल १८५६ को गढ़ व वर्ष १८५० वर्ष बृद, सकल स्वरं १६८-एस का राग, मीहार दारल, सर्ब सर्वर, तिमत-1500), हरियाना की एमसी, सोमा के अदर। संबीत कामिकातरक है तथा प्रैसक विशेख समझा 100 दिनाक 0106.1800 के द्वार परीकृत स्वानिने कीको अर्थन गरीन पनी जमेराम ठठोडा सेनवें : पूर्व : तक्ष्म, पीतम : बाल ४ गाउ-एन का रोप पाए : ठम प्रकार ज

हर्वन नहित कारवर्त तथा उनके गारतो व काककरोजे को एलद्रात उस सकत के प्रवासन की विधि से 60 दिश्सों के अदर बहादर सीते का प्रातन करने के लिये कहा जात है. ऐसा करने में विफान पहने पर en दिवानों के समापन के बाद संपर्दार्शन क्रिनियम 2022 की पात 11 की उप-धात बं अर्थात पार्टी कारेल्ड्रयों की जायेथे। प्रापिकत अधिकारी

[54] # : 00 / 00 / 2024 त्यानः संतीका (हरियामा)

खाते का नाम

एडलोन एसेट सिम्बरकान कंपनी लिपिटेड (हेर्फ़ातरी ट्राट- एवरी 420 हे एक ट्राटी हे कर ने अपनी धनतायीन कार्यवर्त

प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 500, 5वीं मंजिल, आईटीएल दिवन टॉवर, नेताजी सभाव प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली 110034 सीआईएन: L65910DL1995PLC064310

ईमेलः info@progressivefinlease.in वेबसाइटः www.progressivefinlease.in 40वीं एजीएम, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

सचित किया जाता है कि प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैटर . (एजीएम) गुरुवार, 30 सितंबर, 2024 को अप.12:00 बजे (आईएसटी), 367, कोहाट एन्वलेव, पीतमपुरा, दिल्ली 110034 में, एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी निवार के प्रति होती है। इस स्वार किया किया किया किया है। इस होते हैं किया किया है किया किया किया है। इस है किय इस होते हैं विश्व है अपने हैं किया के इस है किया है। इस है किया है किया है किया है। इस है किया है किया है किया इस सदस्यों को भेजी है जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और हिपॉजिटरी पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना की मौतिक प्रतियां मेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों और से परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2023–24, अन्य बातों के साध्य 300 रजीएम की सचना और व्याख्यात्मक विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और स्टॉक एक्सचेंज व साइट www.msci.in पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज ढिपॉजिट मिटेड(एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

। विधानों के अनुपालन में कम्पनी एनएसडीएल के माध्यम से एजीएम में लेन–देन किये जाने वाले प्रकार्य परिप्रेक्ष्य में एजीएम के दौरान तथा इससे पूर्व रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है, विस्तृ निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। रिमोट ई-वोटिंग 27 सितम्बर, 2024 को 9.00 बजे प्रात: प्रारः होगी तथा 29 सितम्बर, 2024 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्य . मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और सदस्यों को कथित तिथि एवं समय बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों के मताधिकार 23 नवम्बर, 20 बाद इराप्पुतान्य एवं साराचा का अनुसार कि लगा। त्रिरचा के मात्राव्यार 25 नावन्य, 2022 (कट-ऑफ विक्रि) तक कम्पाने के प्रस्त इंबिक्टी श्रेयर पूर्जी के उनके अनुपत्त में होंगे। कोई स्वार्क श्रेयर अर्जित करता है और सूचना भेजे जाने के उपरान्त सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर या एनएसडीएल द्वारा प्रावधानित टोव फ्री नम्बर 1800-222-990 पर सम्पर्क करके रिमोट ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त

के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तकें 24 सितम्बर, 2024 से 30 सितम्बर, 2024(दोनों तिथियाँ

ई-मेल पतों का पंजीकरण : तथा डीमैट धारक) ने अपने ई–मेल पते अब तक पंजीकत नहीं कराए हैं वे एजीए सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने तथा रिमोट ई–वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ई—मेल पते तथा पैन की स्कैन्ड प्रति के सा info@progressivefinlease.in पर कम्पनी के पास निवेदन भेज दें।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड राजीव जैन



स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच एक्की 137 और 138, वेक्टर-8 वी, वंदीवड-160009,चेन 0172-2721096 मी. न. 94246-21889, 87095-83732, 99965-40740, 78374-25000, 99719-90597 ईगेल: ubin0578711@unionbankofindia.bank

ई-नीलामी विक्री सुचना

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें ] अचल संपत्तियों की विक्री के लिए विक्री नोटिस

अम जनता की और विशेष रूप से उधारकर्या/ओं और गारंडर/ओं को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटिस दिया बाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बंधक रखी वह नीचे उस्सिचित संपत्ति, के तहत कबता ने लिया गया है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिसूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिसूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत, नीचे उस्तिखित बकाया राशि तथा आगे के ब्याज, शुक्त और सावत की बसूली के लिए नीचे बताए अनुसार ई-नीमामी द्वारा बेचा जाएगा। आदि, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया रथा है। संपत्ति को "कहां है, वहीं है और विना किसी सहारे के" के आधार पर बेचा जा रहा है, क्योंकि ऐसी विकी किसी भी प्रकार की बारटी और अतिपूर्ति के विना है।

नीचे उल्लिखित संपत्ति/संपत्तियों को "ऑनलाइन ई-नीलामी वेबसाइट https://ebkray.in के माध्यम से 26.09.2024 की दोपहर 12.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक वेचा जाएगा।

1)" न्यूनतम बोली वृद्धि राशि आरक्षित मूल्य का 1% और उसके गुणक है। 2)"संपत्ति/संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के भार की जानकारी वैंक/मुरक्षित ऋणदाता को नहीं है।

उधारकत//बंधककर्ता

और गारंडर का नाम ऋषवाताः सेमर्स एमएमएम इंटरनेशनन वेवरेजेज प्राह्मवेट विभिटेड प्लॉट नंबर 49, बैद्योगिक क्षेप, लोधी माजरा, तहसील- बढ़ी, नालावद, जिला . -गोलन, हिमाचन प्रदेश - 173205. (निदेशक भी सुधीर कुमार गुप्ता और भीमती बजीता गुप्ता के माध्यम में) निदेशक: - थी मुधीर कुमार सुमा पुत्र पदम सैन बुमा, मकान नंबर 1383/1, रामनगर, कालका पंचकृता, हरिवाणा-20.06.2021 तक 01.06.2021 से अतिरिक्त व्याज, मागत 133302. 2. चीमती बर्बाता दुमा पत्री भी गुधीर बुमार गुता मकान लंबर 1383/1, रामनगर, कालका. पंचकुला, हरियाणा-133302। गारंडर/बंधककर्ता 1. बीमाना मुधीर कुमार गुप्ता पुत्र पदम सैन गुप्ता हाउम नंबर

मांग नोडिस आरक्षित मूल्य दिनांश और रावा ईएमडी की गई सबि ₹ 36 00 0006 28.05.2021 T. 5.20,38,469.82 T. 3,60,0000/-(केवल गांच करोड़, बीस आध बद्रतीस हजार चार सौ उनहत्तर रुपये और बयासी पैसे मात्र)

और काय के माथ। 1383/1, रामनगर, करनका, पंचकुला, हरियाचा-133302। 2. बीमती संपीता जिंदल पत्नी अनुब जिंदल, मकान नं. 32-ए-एक4, दक्ति खंड-2, इंदिरापुरम, गावियाबाद, सूरी-201010। 3. थीमती बबीता गुप्ता पदी थी प्रदीप कुमार गुप्ता, मकान नंबर 153/5, प्रेमगुरी, मुजप्फरनगर, यूपी-251002। 4.थीमती बबीता गुप्ता पदी थी सुधीर कुमार गुप्ता, मकान नंबर 1383/1, रामनवर, कालक, पंजनुत्वा, हरियामा-133302। 5. सीमान, गंजन मिचल, मबान नंबर 126/एफ, टाइप-5, वेक्टर-3, रिलार्गव ग्रीना, मोती खावती, जामनगर,

मुजराङ-361140। 6.थीमती कंचन मिलन पत्नी. संजय मिलन, मकान नं. 1264एक, टाइफ-6, मेंक्टर-3, रिलायेल डीन्सरिय्तायंस टाउनलिय, मोती खावडी, जामनवर, गुजराङ-361140। 7.बीमती रचना अग्रवाल पत्नी मंजीव जिंदल, पता 1- पींध्ये राजेश बंद एंट मंग, बुगरामी चौपाल, मिमाना जिला। बुजंद तहर, मुपी-203001। पता 2- एव. वं.03-33, व्लॉव-742, पासिर रिलं म्ट्रीट-71, सिवापुर पिन कोड-730633. 8. थी मूल घंद वर्ब, एव. नं.-233/19, बारामपुरी, बुजफरनगर, बू.पी. 9. थी राजीव वर्ब पुत्र सून घंद वर्ब, पता 1- व्यक्ति-633, 03-155, नुदर्शेंहम रिंग रोड, मिंगपुर, पिन मोड-730633, पता 2- मकान नं.233/19, अञ्चपुरी, मुजफ्यरनगर, उत्तर प्रदेन 251001. 10: भी मंत्रीय विवल पुत्र राजेन पंच जिंदल, पता: 1. ब्लॉक 742, पासिर बारअईएस, स्ट्रीट 71, यूनिट -83-33, सिंगापुर-510742: पता: 2. सी/को राजेश चंद एड संस, बुगरामी चौपला, सिवाला, जिला बुलंद शहर, कूपी।

बेची जाने बाली संपत्ति/माँ का विवयण 📑 बंका के विरुद्ध (मीर्जनएनएकई पेनीकरण आईडी संस्था: (मुरला दिन आईडी - 400005963812 बीर एसेट आईडी 200005955957) अवासीय पसैट संयुक्त रूप से थी संजीव जिंदस और थी राजीव गर्न के स्वासित्व में पसैट नंबर जी 2 में स्थित है। प्लीट नंबर 639, शक्ति खंड-3, इंदिरापुरम, तहसीज और जिला गाजिवाबाद, उत्तर प्रदेश - 201014 में बाउंद फ्लोर (पीछे की ओर) लगभग 65.00 वर्ग मीटर माप और (नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार) पूर्व- प्लॉट नंबर 638 से पिरा हुआ है। पश्चिम-प्लॉट संख्वा 640 उत्तर-प्लॉट संख्वा 666, दक्षिण-उत्ती इलारत में सामने की तरफ फ्लैटा (कब्बे का प्रकार: प्रतीकात्मक कब्बा)। नोट: बिक्री पहले बानर CWP/1110/2022 के परिणाम के अधीन होगी माननीय विल्ली उच्च न्यायालय में मामला लंबित है।

उधारनर्जा: 1, मेसर्स व्हापट हाउस वेडिंग हव (प्रोप, असलम अली के माध्यम मे), # 403-मी, वार्ड गेंबर 4, ब्लॉक-4, बली राम क्लॉब मार्नेट, देव समाज हाउन वादग हव पूर्व हॉस्टल के पास. अंधाना शहर, हरियाणा- 134003। 2. धी. असलस असी (प्रोप. मेमर्स व्हाइट हाटस वेडिंग हव), #403-सी, वार्ड नंबर 4, ब्लॉक -4, बनी राम कर्तांच मार्केट, देव समाज वर्त हॉस्टल के पोस, जंबाला शहर हरियाणा- 134003। 3. पीमती मेहरनिशा डब्ल्यूओ इरफान (गारंटर), आरऽजी एच.नं. 1981, मोती नगर, पीली कोडी के पास, जंबाला शहर-134003।

₹, 16,70,000/-₹. 1,67,000/-¥. 33,07,384.40 (केवस तैतीस लाख, सात हजार, तीन मौ भौरामी रुपये और पानीस पैमे) 31.08.2023 तक ब्याज, लागत और बाग सहित

01.09.2023 में प्रभावी।

र्वेची व्याची कार्यों के किया विकास कार्या अवासीय संपत्ति / यर का पूरा हिस्सा चसरा नंबर 171 का/15 का हिस्सा 100.37 वर्ग मीटर चूनि क्षेत्र में शामिल है, जिसमें से टिन लेक से तका क्षेत्र 44.60 वर्ग मीटर है। मौजा बौजागढ़, परवजा मेंट्रव दूर, तहसील सदर जिला देहरादूर में स्थित है। मेहरुनिका पत्नी भी इरफार पुत्री स्वसीन दीन सुहस्मद निकामी 620/1 शालीमार कॉलोनी, अंबाला शहर, हरिवाणा विषट डीड संख्या 12480 विनांक 07.11.2019 के अनुसार। सीमा: पूर्व: 4 फीट बौडी सड़क विसकी माप 24 कीट है, रक्षिम: दूसरों की संपत्ति जिलकी माप 24 कीट है, उत्तर: दूसरों की संपत्ति जिसकी लाप 45 फीट है, दक्षिण: दूसरों की संपत्ति जिसकी लाप 45 फीट है, CERSAI

बाईबी: एसेट आईबी: 200055813706. सुरक्षा आईबी: 400055546861 (कन्ने वर प्रकार: प्रतीवरत्यक कन्ना)। विकी के विस्तृत निक्रमों और शर्तों के लिए, कृष्या मुरक्षित ऋषदाता की वेबमाइट वानी www.unionbankofindia.co.in और नेबमाइट: https://ebkray.in पर दिए कए लिंक को देखे। ईएकडी से संबंधित समस्या के मामले में स्थानांतरण/ईएमडी रिफंड वा विच एवं खाने से संबंधित किसी भी मुद्दे के लिए, वोलीदाता सीधे हेल्प डेस्क नंबर 8291220220 और देनेल आईडी support.ebkray@psballiance.com पर मंपर्क कर मनते हैं। संपर्क तिषरम लिंक के लोनिन पेन के हेल्प देनक मेनू में भी दिए गए हैं: https://ebkray.in

पंजीबरण और नॉविन और बोली निवधों के लिए https://ebkray.in पर जाएं। वैधानिक 15 दिन की बिकी सूचना( नियम 8 (6) का नियम 9(1) के तहत /वैधानिक हित (प्रवर्तन) नियम, 2002

इमें मुरबा हित (प्रवर्तन) निवम, 2002 की बारा 6(2), 8(6) एवं 9(1) के तहत नोटिम भी माना जा सकता है। उक्त ऋष के उधारनकीओं, गारंटराओं और बंधननकीओं को उपर्युग

प्राधिकृत अधिकारी, मुनियन बैंक ऑफ इंडिया दिनांब: 07.09.2024 म्यानः चंडीबद

तिथि पर ई-नीलामी विकी के आयोजन के बारे में मूचित किया जाता है।

Date: 07.09.2024 Place : Gurugram

(Tarandeep Kaur) Company Secretary

By Order of the Board For Hampton Sky Realty Limited

(Formerly Known as Ritesh Properties and Industries Limited) Date: 7th September, 2024